

अद्वैतिसेमेन्ट पोस्ट ऑफ़ जूनियर/सीनियर रिसर्च फेलो

सब्जेक्ट : रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर/सीनियर रिसर्च फेलो (JRF/SRF)

पोस्ट्स : 1

Title: Effects of environmental and occupational noise on cognition

Submit CV by: 04/01/2021 by 5.00 pm through email: senthilssk@yahoo.com

Subject title: Application for JRF/ SRF position.

जेआरएफ के लिए आवश्यक योग्यता:

मेडिकल / इंजीनियरिंग विज्ञान में भौतिक / रासायनिक / जैविक विज्ञान या स्नातक में परास्नातक, योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 60%

UGC / CSIR / ICMR / GATE NET योग्य।

एसआरएफ के लिए आवश्यक योग्यता:


जेआरएफ के लिए योग्यता के अलावा दो साल का अनुभव।

एसआरएफ के लिए उपयुक्त: चूहों / चूहों की हैंडलिंग में अनुभव के साथ जीवन विज्ञान में एनएमआर / एमआरआई / एफएमआरआई या पीएचडी में अनुसंधान का अनुभव।

अवधि: 23 मई, 2021 तक परियोजना के कार्यकाल के साथ लघु अवधि।

केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ईमेल द्वारा साक्षात्कार के बारे में सूचित किया जाएगा।

Fellowship: JRF (25000+30% HRA) or SRF (28000+30%HRA)


Dr. Senthil Kumar
Principal
Department of Physical Sciences
All India Institute of Medical Sciences
New Delhi-110029

Advertisement for the post of Junior/Senior Research Fellow

Subject: Recruitment for the post of Junior/Senior Research Fellow (JRF/SRF)
Number of posts: One post
Title: Effects of environmental and occupational noise on cognition
Project Code: N1779
Submit CV by: 04/01/2021 by 5.00 pm through email: senthilssk@yahoo.com
Subject title: Application for JRF/ SRF position.

Essential Qualifications for JRF:

Masters in Physical/ Chemical/ Biological Sciences or Bachelors in Medical / Engineering Sciences,
A minimum of 60% in the qualifying examination
UGC/CSIR/ICMR/GATE NET qualified.

Essential Qualifications for SRF:


Two years of experience in addition to the qualifications for JRF.

Preferable for SRF: Research experience in NMR/ MRI/ fMRI or PhD in life sciences with experience in the handling of rats/mice.

Duration: Short term with project tenure till 23rd May, 2021.

Only shortlisted candidates will be informed of the interview by email.

Fellowship: JRF (25000+30% HRA) or SRF (28000+30%HRA)


28/12/2020
आचार्य डा. एस. सेन्थिल कुमार
Prof. Dr. S. Senthil Kumar
अध्यापक/Professor
एनएमएल, दिल्ली में एमआरआई, एफएमआरआई, एनएमआर, एमआरआई फैसिलिटी
एनएमएल, दिल्ली में एमआरआई, एफएमआरआई, एनएमआर, एमआरआई फैसिलिटी
All India Institute of Medical Sciences
नई दिल्ली-110029/New Delhi-110029